

11. ईट का जवाब पत्थर से देना (मुँहतोड़ जवाब देना)– हमारी सेना ने सदा से ही शत्रु सेना को ईट का जवाब पत्थर से दिया है।
12. उल्टी गंगा बहाना (नियम के एकदम खिलाफ़ काम करना)– नाशता करने के बाद कसरत व योगासन करने से नुकसान होगा। ऐसा करके उल्टी गंगा मत बहाओ।
13. एक आँख से देखना (सबके साथ समान व्यवहार करना)– माता-पिता, गुरुजन आदि अपने बच्चों को एक आँख से देखते हैं।
14. एक और एक ग्यारह (एकता में बल होना)– समूह में काम करने से सफलता अवश्य मिलती है क्योंकि एक और एक ग्यारह होते हैं।
15. कमर कसना (पूरी तरह तैयार होना)– परीक्षा में अच्छे अंक लाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए कमर अवश्य कसनी पड़ती है।
16. कान भरना (किसी की चुगली करना)– हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, जो बेवजह कान भरते हैं।
17. खून खौलना (बहुत अधिक गुस्सा आना)– उसके अंदर ज़रा-सी भी सहनशीलता नहीं है। ज़रा-सी बात पर उसका खून खौलने लगता है।
18. गड़े मुर्दे उखाड़ना (पुरानी बातें याद करना)– गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें वर्तमान में ही जीने का प्रयास करना चाहिए।
19. गाँठ बाँध लेना (सीख मान लेना)– बड़ों की बातें जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। हमें उन्हें गाँठ बाँध लेना चाहिए।
20. घड़ों पानी पड़ना (शर्मिदा होना)– बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर उस सूट-बूट पहने युवक पर घड़ों पानी पड़ गया।
21. घुटने टेकना (हार स्वीकार करना)– हमें मुश्किल हालातों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि उनसे दो-दो हाथ करने चाहिए।
22. चकमा देना (धोखा देना)– शातिर चोर पुलिस को चकमा देकर भाग निकला।
23. छक्के छुड़ाना (हरा देना)– भारतीय क्रिकेट टीम ने अनेक बार ऑस्ट्रेलियन टीम के छक्के छुड़ाए हैं।
24. जले पर नमक छिड़कना (दुखी को और अधिक दुखी करना)– वह अपनी हार से काफ़ी निराश है, तुम उसकी गलतियाँ बताकर क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो?
25. टका-सा जवाब देना (कठोर जवाब देना)– कुछ बच्चे माता-पिता को टका-सा जवाब देकर बहुत दुखी करते हैं।
26. टाँग अड़ाना (दखलंदाजी करना)– कुछ लोग ज़बरदस्ती दूसरों के काम में टाँग अड़ाते हैं।